



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 321) पटना, बुधवार, 26 मार्च 2014

सं0 1/पी0-439/2006-सा0प्र0-4004

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

25 मार्च 2014

विषय:—भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदाधिकारियों की नियुक्तियों (पदस्थापन /स्थानांतरण)

हेतु सिविल सर्विस बोर्ड का गठन ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सा0का0नि0-67 (अ) दिनांक 28.01.2014 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियमावली, 1954 लागू किया गया है । उक्त संशोधन नियमावली के द्वारा नियम-7 में किये गए प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार नियम-7 (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूची में निरूपित सिविल सेवा बोर्ड का गठन अगले आदेश तक निम्नवत् करती है:-

- | | | | |
|-------|--|---|--------------|
| (i) | मुख्य सचिव, बिहार | — | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री अशोक कुमार चौहान, भा0प्र0से0 (80) | | |
| | अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद | — | सदस्य |
| (iii) | प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार | — | सदस्य सचिव । |

2, सिविल सेवा बोर्ड उक्त नियम-7(1) की विनिर्दिष्ट अनुसूची में वर्णित कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी एक सौ प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-01) को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

वीरेन्द्र प्रसाद यादव,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 321-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>